

**Criteria 1.1.3**

**Minutes of relevant Academic Council/BOS Meeting**

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की शैक्षिक परिषद् की  
दिनांक 09/06/2017 दिन शुक्रवार को अपराह्न 02:00 बजे विश्वविद्यालय  
के समिति कक्ष में सम्पन्न प्रथम बैठक का कार्यवृत्त:

बैठक में निम्नवत् उपस्थित हुए:

1.	प्रो० विनय कुमार पाठक, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री कफील अहमद, निदेशक, आई०आर०डी०टी०, कानपुर, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3.	प्रो० तपोव्रत लहरी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	सदस्य
4.	प्रो० शिशिर सिन्हा, आई०आई०टी०, रुड़की	सदस्य
5.	प्रो० पुलक मोहन पाण्डेय, आई०आई०टी०, दिल्ली	सदस्य
6.	प्रो० सुनील कुमार, अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ इंजी०, एवं विभागाध्यक्ष, सिविल इंजी०, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
7.	प्रो० करुणाकर सिंह, अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ केमिकल टेक०, विभागाध्यक्ष, एफ०टी० एवं कुलसचिव, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
8.	प्रो० एस०यू० सिददकी, अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ बेसिक एण्ड एप्लाइड साइंस एवं विभागाध्यक्ष, गणित, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
9.	डा० राम नरेश, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	सदस्य
10.	प्रो० यदुवीर सिंह, अधिष्ठाता, योजना एवं स्रोत जनन, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
11.	प्रो० रीना सिंहल, अधिष्ठाता, शोध एवं विकास एवं विभागाध्यक्ष, प्लारिस्टिक टेक० एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
12.	प्रो० कृष्ण राज, अधिष्ठाता, उद्भवन हब, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
13.	प्रो० आनन्द कुमार, अधिष्ठाता, सतत् शिक्षा और आन्तरिक गुणवत्ता आशवासन एवं विभागाध्यक्ष, मैकेनिकल इंजी०, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
14.	प्रो० एन० कोहली, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी०, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
15.	डा० एस०के० गुप्ता, विभागाध्यक्ष, केमिकल इंजी०, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
16.	डा० रचना अस्थाना, विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रानिक्स इंजी०, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
17.	श्री जे०के० द्विवेदी, विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रिकल इंजी०, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
18.	श्री सुमन्त चटर्जी, विभागाध्यक्ष, लेदर टेक०, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
19.	श्री एस०जे० नागर, विभागाध्यक्ष, बी०ई०, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
20.	प्रो० आर०के० त्रिवेदी, विभागाध्यक्ष, ओ०टी०, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
21.	प्रो० पी०के० कमानी, विभागाध्यक्ष, पी०टी०, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
22.	प्रो० आर०के० शुक्ला, विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग एवं मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
23.	डा० बन्दना निगम, कार्यवाहक विभागाध्यक्ष, मानविकी, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
24.	प्रो० राम प्रसाद, केमिकल इंजी० विभाग, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
25.	प्रो० प्रमोद कुमार, परीक्षा नियंत्रक, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	विशेष आमंत्रि
26.	डा० वन्दना दीक्षित कौशिक, उप परीक्षा नियंत्रक, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	विशेष आमंत्रि
27.	श्री राजेश सिंह, वित्त नियंत्रक, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	विशेष आमंत्रि
28.	डा० गौरव बरतरिया, सह अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	विशेष आमंत्रि
29.	डा० पी०के०एस० यादव, सह अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	विशेष आमंत्रि
30.	प्रो० दिप्तीक परमार, अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य-सचिव

बैठक में निम्नवत् सदस्य उपस्थित नहीं हो सके:

1.	प्रो० पी०एस० घोषदस्तीदार, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्रतिनिधि	सदस्य
2.	प्रो० अनुपम, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	प्रो० एस०पी० शुक्ला, आई०ई०टी०, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के प्रतिनिधि	सदस्य

कुलपति महोदय द्वारा पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0, कानपुर के एच0बी0टी0यू0, कानपुर में पुर्नगठन के पश्चात् गठित शैक्षिक परिषद् की प्रथम बैठक में उपरिथत सदस्यों का स्वागत करते हुये शैक्षिक परिषद् के गठन एवं एच0बी0टी0यू0 अधिनियम में दिये गये परिषद् के कार्य/दायित्वो का विवरण दिया। तदोपरान्त परिषद् द्वारा कार्यसूची के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तावो पर चर्चा प्रारम्भ हुई।

मद सं0 1.00: पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0, कानपुर के विश्वविद्यालय में पुर्नगठन होने से पूर्व हुई एच0बी0टी0आई0, कानपुर की 27/01/2016 दिन बुधवार को सम्पन्न शैक्षिक परिषद् की सप्तम बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

परिषद् ने दिनांक 27/1/2016 को सम्पन्न पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0, कानपुर की शैक्षिक परिषद् की सप्तम बैठक के कार्यवृत्त को शैक्षिक अनुभाग के पत्रांक संख्या 321/शैक्षिक/शै0प0/2015-16 दिनांक 30/01/2016 के साथ संलग्न कर सदस्यों को प्रेषित किया गया। तद् कम में विभागाध्यक्ष प्लास्टिक टेक0 के पत्र सं0 828/PL/16 दिनांक 19/02/2016, विभागाध्यक्ष बी0ई0एफ0टी0 के पत्र सं0 121/BEFT/2016 दिनांक 23/02/2016, विभागाध्यक्ष ओ0पी0टी0 के पत्र सं0 724/OPT/HOD/16 दिनांक 24/02/2016, विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर सांइस एवं इंजी0 के पत्र सं0 331/CSE/2016 दिनांक 26/02/2016, विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रानिक्स इंजी0 के पत्र सं0 659/ET/2016 दिनांक 26/02/2016, विभागाध्यक्ष गणित विभाग के पत्र सं0 36/Math/16 दिनांक 18/02/2016, विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रिकल इंजी0 के पत्र सं0 505/EED/16 दिनांक 16/02/2016 एवं परीक्षानियंत्रक के पत्र सं0 728/OPT/PK/16 दिनांक 26/02/2016 का संज्ञान लेते हुये पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0, कानपुर की सप्तम बैठक के कार्यवृत्त पर अपना अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं0 1.01: पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0, कानपुर के विश्वविद्यालय में पुर्नगठन होने फलस्वरूप नवप्रवेशित (सत्र 2016-17) छात्रों के इनरोलमेन्ट के आवंटन के सम्बन्ध में।

परिषद् ने उपरोक्त प्रकरण पर शासन एवं विश्वविद्यालय स्तर पर हुई विभिन्न बैठकों के निर्णयों का संज्ञान लेते हुये अपना अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं0 1.02: मद सं0 1.01 में वर्णित निर्णय के कम में 2016 में प्रवेशित छात्रों को एच0बी0टी0यू0, कानपुर द्वारा इनरोलमेन्ट नं0 का आवंटन।

परिषद् ने 2016 में प्रवेशित छात्रों (बी0टेक0, एम0टेक0, एम0सी0ए0 एवं पी0एच0डी0) को एच0बी0टी0यू0, कानपुर द्वारा इनरोलमेन्ट नम्बर आवंटित करने की प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त करते हुये अपना अनुमोदन प्रदान किया।

मद सं0 1.03: शैक्षिक सत्र 2016-17 में प्रवेशित छात्रों के Course Structure /Evaluation Scheme निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

परिषद् ने विश्वविद्यालय 2016-17 में प्रवेशित छात्रों पर पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0, कानपुर के ही कोर्स स्ट्रक्चर/पाठ्यक्रम/विन्यास लागू करने के निर्णय का संज्ञान लेते हुये अपना अनुमोदन प्रदान किया।

First Meeting of Academic Council of HBTU Kanpur held on 09/06/2017 (Friday)  
at 2:00 pm in University Committee Room

Agenda item 1.03: Approval of Course Structure and Evaluation Scheme for students admitted during 2016-17

Decision: Council approved Course Structure and Evaluation Scheme of erstwhile HBTU, Kanpur for students admitted during Academic Session 2016-17.

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर  
की शैक्षिक परिषद् की  
दिनांक 09/06/2017 दिन शुक्रवार को सम्पन्न  
होने वाली प्रथम बैठक की कार्य सूची।

बैठक का स्थान : समिति कक्ष, एच0बी0टी0आई0, कानपुर।  
समय : अपराहन 02:00 बजे

दिनांक : 09/06/2017  
दिन : शुक्रवार

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.01	पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0, कानपुर के विश्वविद्यालय में पुर्नगठन होने फलस्वरूप नवप्रवेशित (सत्र 2016-17) छात्रों के इनरोलमेन्ट के आवंटन के सम्बन्ध में।	1-3
1.02	मद सं0 1.01 में वर्णित निर्णय के क्रम में 2016 में प्रवेशित छात्रों को एच0बी0टी0यू0, कानपुर द्वारा इनरोलमेन्ट नं0 का आवंटन।	4-5
1.03	शैक्षिक सत्र 2016-17 में प्रवेशित छात्रों के Course Structure /Evaluation Scheme निर्धारण करने के सम्बन्ध में।	6-8
1.04	डॉ0 ए0पी0जे0ए0के0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा शैक्षिक सत्र 2015-16 से लागू नये Credit Based Promotion rules को अपनाया जाना।	9-14
1.05	डॉ0 ए0पी0जे0ए0के0 प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा लागू नये Grace Rule को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	15-17
1.06	विभिन्न विभागों के BoS से अनुमोदित कोर्स प्रारूप में त्रुटियाँ एवं कोर्स कोड में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।	18-32
1.07	विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्याओं की BoS में शैक्षिक परिषद् के प्रतिनिधियों को नामित किये जाने के सम्बन्ध में।	34-39
1.08	संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों के शैक्षिक सत्र 2015-16 के परीक्षाफल का विश्लेषण एवं वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 के सेवायोजन का विवरण एवं वर्तमान में संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में पंजीकृत छात्रों की स्थिति पर विचार।	41-54
1.09	पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0, कानपुर के सितम्बर 1, 2016 में एच0बी0टी0यू0, कानपुर में पुर्नगठन के पश्चात् हुई अधिष्ठाता/विभागाध्यक्षों की विभिन्न बैठकों (शैक्षिक क्रिया कलाप से सम्बन्धित) के कार्यवृत्त पर विचार एवं अनुमोदन।	56-64
1.10	पूर्ववर्ती एच0बी0टी0आई0, कानपुर के सितम्बर 1, 2016 में एच0बी0टी0यू0, कानपुर में पुर्नगठन के पश्चात् हुई परीक्षा परिषद् (Board of Examination) की विभिन्न बैठकों के कार्यवृत्त पर विचार एवं अनुमोदन।	66-84
1.11	एच0बी0टी0यू0, कानपुर की "शोध एवं विकास परिषद्" के गठन के क्रम में शैक्षिक परिषद् के नामांकन के सम्बन्ध में।	85
1.12	एच0बी0टी0यू0, कानपुर की "उद्भवन हब" के गठन के क्रम में शैक्षिक परिषद् के नामांकन के सम्बन्ध में।	86
1.13	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य मद पर विचार।	87

**मद सं० 1.03:** शैक्षिक सत्र 2016-17 में प्रवेशित छात्रों के Course Structure /Evaluation Scheme निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

परिषद को अवगत कराना है कि पूर्ववर्ती एच०बी०टी०यू०, कानपुर को सितम्बर 1, 2016 से विश्वविद्यालय में पूर्णगठन किया गया। जबकि शैक्षिक सत्र 2016-17, अगस्त 2016 के प्रथम सप्ताह में शुरू हो गया था। उपरोक्त के दृष्टिगत 2016-17 में प्रवेशित छात्रों पर पूर्ववर्ती संस्थान एच०बी०टी०आई, कानपुर का ही कोर्स स्ट्रक्चर/पाठ्यक्रम/विन्यास लागू किया गया। अर्थात् बी०टेक०, एम०टेक०, एम०सी०ए० में प्रथम वर्ष 2016-17 में प्रवेशित छात्र एच०बी०टी०आई, कानपुर के Course Structure/Evaluation Scheme द्वारा ही नियमन होंगे और उन पर डॉ० ऐ०पी०जे०ऐ०के० प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के ही Ordinance लागू होंगे। उक्त के सन्दर्भ में विवरण अनुलग्नक-3, पृष्ठ 7-8 पर संलग्न कर परिषद के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

परिषद् से अनुरोध है कि उक्त पर विचारकर अपना अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें।

**2<sup>nd</sup>10 Course Structure for B.Tech-First Year (common to all branches)**

S. No.	Course Code	Subject	Periods				Evaluation Scheme (Marks)			Subject Total (Marks)	Credit(s)
			L		P	Sessional Exam		ESE			
			T	T		CT	TA		Total		
			3	1	0	30	20	50	100	4	
1	IPH101/HCY101	Physics/Chemistry	3	1	0	30	20	50	100	4	
2	IMA101	Mathematics I	3	1	0	30	20	50	100	4	
3	IME101/HCS101	Engg. Mechanics/Concepts of computer & programming	3	1	0	30	20	50	100	4	
4	IEE101/HET101	Electrical Engg./ Electronics & Instrumentation Engg.	3	1	0	30	20	50	100	4	
5	ICE101/ IHU101	Engg. Graphics/ Professional Communication	1/3	3/1	0	30	20	50	100	4	
6	IHU102/HCE102	Remedial English/Environment and Ecology	2	0	0				50	Audit	
<b>Practical/Training/Project</b>											
1	IPH151/HCY151	Physics/Chemistry	0	0	3			25	25	1	
2	IWS151/HEE151	Workshop Practice/ Electrical Engg.	0	1	3			50	50	2	
3	ICS151/HHU151	Computer Lab/Language Lab	0	0	3			25	25	1	
4	IGP101	General Proficiency	-	-	-			50	-	-	
<b>SEMESTER II</b>											
S. No.	Course Code	Subject	Periods				Evaluation Scheme (Marks)			Subject Total (Marks)	Credit(s)
		L		P	Sessional Exam		ESE				
		T	T		CT	TA		Total			
			3	1	0	30	20	50	100	4	
1	IPH201/HCY201	Physics/Chemistry	3	1	0	30	20	50	100	4	
2	IMA201	Mathematics II	3	1	0	30	20	50	100	4	
3	IME201/HCS201	Engg. Mechanics/Concepts of computer & programming	3	1	0	30	20	50	100	4	
4	IEE101/HET201	Electrical Engg./ Electronics & Instrumentation Engg.	3	1	0	30	20	50	100	4	
5	ICE201/ IHU201	Engg. Graphics/ Professional Communication	3/1	1/3	0	30	20	50	100	4	
6	IHU202/HCE202	Remedial English/Environment and Ecology	2	0	0				50	Audit	
<b>Practical/Training/Project</b>											
1	IPH251/HCY251	Physics/Chemistry	0	0	3			25	25	1	
2	IWS251/HEE251	Workshop Practice/ Electrical Engg.	0	1	3			50	50	2	
3	ICS251/HHU251	Computer Lab/Language Lab	0	0	3			25	25	1	
4	IGP201	General Proficiency	-	-	-			50	-	-	
									50	1000	

## Course Structure for M.C.A.-First Year

S. No.	Course Code	Subject	Periods			Evaluation Scheme (Marks)			Subject Total (Marks)	Credit(s)
			L	T	P	Sessional Exam		ESE		
						CT	TA			
<b>Theory</b>										
1	ICA-101	Professional Communication	3	1	0	30	20	50	100	4
2	ICA-102	Accounting & Financial Management	3	1	0	30	20	50	100	4
3	ICA-103	Computer Concept & Programming in C	3	1	0	30	20	50	100	4
4	ICA-104	Discrete Structure	3	1	0	30	20	50	100	4
5	ICA-105	Computer Organization								
<b>Practical/Training/Project</b>										
1	ICA-151	Programming Lab	0	0	3	30	20	50	50	1
2	ICA-152	Language Lab	0	0	3	30	20	50	50	1
3	IGP-101	General Proficiency	-	-	-	-	-	50	-	-
S. No.	Course Code	Subject	Periods			Evaluation Scheme (Marks)			Subject Total (Marks)	Credit(s)
			L	T	P	Sessional Exam		ESE		
						CT	TA			
<b>Theory</b>										
1	ICA-201	Environment Science & Ethics	3	1	0	30	20	50	100	4
2	ICA-202	Computer Oriented Numerical & Statistic Technique	3	1	0	30	20	50	100	4
3	ICA-203	Date Structures Using c	3	1	0	30	20	50	100	4
4	ICA-204	Organizational Structure & Personal Management	3	1	0	30	20	50	100	4
5	ICA-205	Operating Systems								
<b>Practical/Training/Project</b>										
1	ICA-251	Data Structure Lab	0	0	3	30	20	50	50	1
2	ICA-252	Numerical & Statistical Techniques Lab	0	0	3	30	20	50	50	1
3	IGP-201	General Proficiency	-	-	-	-	-	50	-	-

**कार्यालय अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप**  
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-02

पत्रांक: 20 / शैक्षिक / वि०प० द्वितीय बैठक / 2017-18

दिनांक: 07/04/2018

**हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की विद्या परिषद की**  
**दिनांक 04/04/2018 दिन बुधवार को प्रातः 11:00 बजे विश्वविद्यालय**  
**के समिति कक्ष में सम्पन्न द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त:**

बैठक में निम्नवत् उपस्थित हुए :

1.	प्रो० एन०बी० सिंह, कुलपति, एच०बी०टी०यू० कानपुर	अध्यक्ष
2.	श्री सरोज कुमार, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय लखनऊ, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ	सदस्य
3.	प्रो० पी०एस० घोषदस्तीदार, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	प्रो० अनुपम, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	प्रो० एस०पी० शुक्ला, आई०ई०टी०, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	प्रो० देब्रत गोस्वामी, आई०आई०टी०, कानपुर	सदस्य
7.	प्रो० मनीष गौर, सेन्टर फार एडवान्सड स्टडीज, ए०के०टी०यू०, लखनऊ	सदस्य
8.	प्रो० सुनील कुमार, विभागाध्यक्ष, सिविल इंजी० एवं अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ इंजी०, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
9.	प्रो० करुणाकर सिंह, विभागाध्यक्ष, फूड टेक०, अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ केमिकल टेक०, एवं कुलसचिव, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
10.	प्रो० एस०यू० सिददकी, अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ बेसिक एण्ड एप्लाइड साइंस एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
11.	प्रो० के०एम० महापात्रा, विभागाध्यक्ष, मानविकी एवं अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ ह्यूमिनाटीज एण्ड सोशल साइंसेज एच०बी०टी०यू० कानपुर	सदस्य
12.	प्रो० राम नरेश, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, एच०बी०टी०यू० कानपुर	सदस्य
13.	प्रो० रघुराज सिंह, विभागाध्यक्ष, सी०एस०ई० एवं अधिष्ठाता, योजना एवं श्रोत जनन, एच०बी०टी०यू० कानपुर	सदस्य
14.	प्रो० रीना सिंहल, अधिष्ठाता, शान्ति एवं विकास, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
15.	प्रो० कृष्ण राज, अधिष्ठाता, उद्भवन हब, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
16.	प्रो० दिप्तीक परमार, अधिष्ठाता, सतत् शिक्षा और आन्तरिक गुणवत्ता आशवासन, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
17.	प्रो० प्रमोद कुमार, परीक्षा नियंत्रक, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
18.	प्रो० आर० के० त्रिवेदी, विभागाध्यक्ष, आयल टेक०, एच०बी०टी०यू० कानपुर	सदस्य
19.	प्रो० पी०के० कमानी, विभागाध्यक्ष, पेन्ट टेक०, एच०बी०टी०यू० कानपुर	सदस्य
20.	प्रो० आर०के० शुक्ला, विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग एवं मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य





मद सं० 2.16 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य मद पर विचार।

मद सं० 2.16.01

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर में प्लास्टिक टेक० विभाग में एम०टेक० पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद ने उक्त प्रकरण पर गहन विचारोपरान्त अपनी सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की। परिषद ने प्लास्टिक टेक० विभाग को इस संदर्भ में आधारभूत संरचना के सुद्वणीकरण के साथ प्रक्रिया सम्बन्धी सभी बिन्दुओं पर आवश्यक तैयारी अविलम्ब शुरू करने हेतु निर्देशित किया।

मद सं० 2.16.02

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर में पेन्ट टेक० विभाग में एम०टेक० पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद ने उक्त प्रकरण पर गहन विचारोपरान्त अपनी सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की। परिषद ने पेन्ट टेक० विभाग को इस संदर्भ में आधारभूत संरचना के सुद्वणीकरण के साथ प्रक्रिया सम्बन्धी सभी बिन्दुओं पर आवश्यक तैयारी अविलम्ब शुरू करने हेतु निर्देशित किया।

मद सं० 2.16.03

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर के मानविकी विभाग में MBA program with the specialization in Entrepreneurship पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

परिषद ने उक्त प्रकरण पर गहन विचारोपरान्त अपनी सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की। परिषद ने मानविकी एवं समाज विज्ञान को इस संदर्भ में आधारभूत संरचना के सुद्वणीकरण के साथ प्रक्रिया सम्बन्धी सभी बिन्दुओं पर आवश्यक तैयारी अविलम्ब शुरू करने हेतु निर्देशित किया।

**कार्यालय अधिष्ठाता, शैक्षिक क्रिया कलाप**  
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर-02

पत्रांक: 20 / शैक्षिक / वि०प० द्वितीय बैठक / 2017-18

दिनांक: 07/04/2018

**हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की विद्या परिषद की**  
**दिनांक 04/04/2018 दिन बुधवार को प्रातः 11:00 बजे विश्वविद्यालय**  
**के समिति कक्ष में सम्पन्न द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त:**

बैठक में निम्नवत् उपस्थित हुए :

1.	प्रो० एन०बी० सिंह, कुलपति, एच०बी०टी०यू० कानपुर	अध्यक्ष
2.	श्री सरोज कुमार, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय लखनऊ, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ	सदस्य
3.	प्रो० पी०एस० घोषदस्तीदार, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्रतिनिधि	सदस्य
4.	प्रो० अनुपम, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	प्रो० एस०पी० शुक्ला, आई०ई०टी०, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	प्रो० देब्रत गोस्वामी, आई०आई०टी०, कानपुर	सदस्य
7.	प्रो० मनीष गौर, सेन्टर फार एडवान्सड स्टडीज, ए०के०टी०यू०, लखनऊ	सदस्य
8.	प्रो० सुनील कुमार, विभागाध्यक्ष, सिविल इंजी० एवं अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ इंजी०, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
9.	प्रो० करुणाकर सिंह, विभागाध्यक्ष, फूड टेक०, अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ केमिकल टेक०, एवं कुलसचिव, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
10.	प्रो० एस०यू० सिददकी, अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ बेसिक एण्ड एप्लाइड साइंस एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
11.	प्रो० के०एम० महापात्रा, विभागाध्यक्ष, मानविकी एवं अधिष्ठाता, स्कूल ऑफ ह्यूमिनाटीज एण्ड सोशल साइंसेज एच०बी०टी०यू० कानपुर	सदस्य
12.	प्रो० राम नरेश, अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, एच०बी०टी०यू० कानपुर	सदस्य
13.	प्रो० रघुराज सिंह, विभागाध्यक्ष, सी०एस०ई० एवं अधिष्ठाता, योजना एवं श्रोत जनन, एच०बी०टी०यू० कानपुर	सदस्य
14.	प्रो० रीना सिंहल, अधिष्ठाता, शोध एवं विकास, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
15.	प्रो० कृष्ण राज, अधिष्ठाता, उद्भवन हब, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
16.	प्रो० दिप्तीक परमार, अधिष्ठाता, सतत् शिक्षा और आन्तरिक गुणवत्ता आशवासन, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
17.	प्रो० प्रमोद कुमार, परीक्षा नियंत्रक, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य
18.	प्रो० आर० के० त्रिवेदी, विभागाध्यक्ष, आयल टेक०, एच०बी०टी०यू० कानपुर	सदस्य
19.	प्रो० पी०के० कमानी, विभागाध्यक्ष, पेन्ट टेक०, एच०बी०टी०यू० कानपुर	सदस्य
20.	प्रो० आर०के० शुक्ला, विभागाध्यक्ष, भौतिकी विभाग एवं मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, एच०बी०टी०यू०, कानपुर	सदस्य



मद सं० 2.03

शैक्षिक सत्र 2017-18 के नव प्रवेशित छात्रों पर **Course Structure / Evaluation Scheme** के निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

परिषद ने कोर्स विन्यास/मूल्यांकन पद्यति इस परिवर्तन के साथ अपना अनुमोदन प्रदान किया कि प्रस्तावित 160 क्रेडिट के स्थान पर **172 क्रेडिट** का कुल शैक्षिक भार वी०टेक० की प्रत्येक विद्या के लिये नियत किया जाय। प्रथम वर्ष के कोर्स विन्यास को यथावत रखते हुये द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में दो-दो क्रेडिट का अतिरिक्त कार्यभार (Work Load) सामान्य रूप से वितरित किया जाय।

विश्वविद्यालय के सभी विभाग अपने वी०टेक० कोर्स के लिये एक समान कोर्स टेम्पलेट (uniform course template) का अनुसरण करते हुये दो कार्य दिवसों के अन्दर आवश्यक बदलाव के साथ अपना कोर्स विन्यास शैक्षिक क्रियाकलाप को प्रस्तुत कर देंगे। सभी विभागों से यह भी अपेक्षा की गयी कि वह विभागीय इलेक्टिव / ओपेन इलेक्टिव हेतु एक विस्तृत "कोर्स सूची" तैयार करेंगे जो मूक (**Massive Open On-line Course**) के माध्यम से पठित हो सकेंगे। सभी विभाग ऐसे विषयों के लिये एक विषय संयोजक (Course Coordinator) नामित करेंगे जो कोर्स के संचालन के साथ-साथ मिड सेमेस्टर एवं सेमेस्टर मुख्य परीक्षा का मूल्यांकन भी करेंगे।

परिषद ने मा० कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष, विद्या परिषद को उक्त पर आवश्यक अनुमोदन करने हेतु अधिकृत किया गया।





हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय

नवाबगंज, कानपुर - 208002, उ.प्र., भारत

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY

NAWABGANJ, KANPUR - 208002, U.P., INDIA

(Formerly Harcourt Butler Technological Institute, Kanpur)

Phone : +91-0512-2534001-5, 2533812, website : <http://www.hbtu.ac.in>, Email : [vc@hbtu.ac.in](mailto:vc@hbtu.ac.in)

100 YEARS  
1921 - 2021

**Second Meeting of Academic Council of HBTU Kanpur held on 04/04/2018 (Wednesday) at 11:00 am in University Committee Room**

**Agenda item 2.03:** Approval of Course Structure and Evaluation Scheme for students admitted during academic session 2017-18.

**Decision:**

Council approved the Course Structure and Evaluation Scheme with 172 Credits in place of 160 credits as proposed. Course Structure of first year was approved without modification while 2 credits extra work load was approved for second, three and fourth year students.

Council directed all the Departments to finalize Course Structure & Evaluation Scheme for B.Tech. programme of their Department as per the uniform Course template agreed. It was also decided that Departments will have a big basket of courses for Electives / Open Electives which may be offered on MOOC (Massive Open Online Courses). All the Departments will nominate a course co-ordinator who will conduct the courses along with Evaluation of Mid Semester and End Semester Examinations.

Council authorized Vice Chancellor and Chairman, Academic Council for its approval.

(Anand Kumar)

Dean of Academic Affairs

**Additional information:**

**Minutes of BoS meetings:**

<http://hbtu.ac.in/bos-minutes-of-meeting/>

**Minutes of Academic Council meetings:**


<http://hbtu.ac.in/academic-committee/>



**(Anand Kumar)**  
Dean of Academic Affairs


# Board of Studies (BoS) Meeting

## Photographs




Board of Studies meeting of Department of Civil Engineering  
held on October 22, 2022

# Board of Studies (BoS) Meeting Photographs



Board of Studies meeting of Department of Humanities (Management) held on October 21, 2022



Board of Studies meeting of Department of Humanities held on October 22, 2022

# Board of Studies (BoS) Meeting Photographs



Board of Studies meeting of Department of Mathematics  
held on October 01, 2022

**(Anand Kumar)**  
Dean of Academic Affairs